

## प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 22.12.2020

01 किलोग्राम स्मैक (अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 01 करोड रुपये) व 01 वैगनआर गाड़ी सहित 02

### अभियुक्त थाना नरौरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी डिबाई श्री सुश्री वन्दना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 21.12.2020 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक थाना नरौरा श्री अमर सिंह मय पुलिस टीम के क्षेत्र में तलाश वांछित व संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति बदायू की तरफ से एक वैगनआर कार से स्मैक लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम नरौरा बैराज पुल पर पहुँचकर बेरियर डालकर चैकिंग करने लगी। कुछ समय पश्चात एक वैगनआर गाड़ी बैराज की तरफ से आती हुई दिखायी दी जिसको पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो अभियुक्तगण गाड़ी को तेज गति से मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे तभी पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर गाड़ी में सवार दोनों अभियुक्तों को समय रात्रि करीब 10.30 बजे 01 किलोग्राम स्मैक(अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 01 करोड रुपये), 01 वैगनआर गाड़ी सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. गफ्तार पुत्र अल्लादिया निवासी छपैठी थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
2. हिर्देश पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम कादमपुर थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस।  
हाल पता- ग्राम बलेन थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

### बरामदगी-

1. 01 किलोग्राम स्मैक(अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 01 करोड रुपये)
2. 01 वैगनआर गाड़ी न0- डीएल-8सीएनबी-2343

गिरफ्तार दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के मादक पदार्थ तस्कर हैं जो बरामद स्मैक को जनपद बदायू से तस्करी कर दिल्ली सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। अभियुक्तगण द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी कर दिल्ली व आस-पास के जनपदों में अधिक दाम पर बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नरौरा पर मु0अ0सं0-218/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

1. श्री अमर सिंह प्रभारी निरीक्षक नरौरा
2. उ0नि0 प्रदीप कुमार, उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह
3. का0 गगन चौधरी, का0 राजीव यादव, का0 योगेश कुमार